

प्रारूप-2

फोन:-01552266268

फैक्स:-01552266268

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) हनुमानगढ़ राजस्थान

क्रमांक—जिशिआ / हनु / प्रा० / मान्यता / 2012 / 1656

दिनांक:- 5/2/2013

प्रबन्धक

एंजल पब्लिक शिक्षा समिति संस्था नोहर

तह नोहर जिला हनुमानगढ़

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की घारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम ॥ के उप नियम (4)के अधीन विधालय का मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक 20.9.2011 के आवेदन और इस संबंध में विधालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश एंजल पब्लिक स्कूल नोहर (अग्रेजी माध्यम) तह: नोहर को दिनांक 12/2012 से तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा 1 से 8 कक्षा तक के लिये अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अध्यधीन है।

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2. विधालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आधीनियम, 2009(उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010(उपाबंध 2) के उपबंधों का पालना करेगा।

3. विधालय कक्षा 1 में उस कक्षा के बालकों की सख्त्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ौस के कमज़ोर वर्ग और अलाभपद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसक पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विधालय को अधिनियम की घारा-12(2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विधालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5. सोसायटी/विधालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कॉलरशिप प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।

6. विधालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।

7. विधालय सुनिश्चित करेगा कि:-

- (1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विधालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विधालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
- (2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
- (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
- (5) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विधार्थियों का स्मावेश किया जाना।
- (6) अच्छापकों की भर्ती अधिनियम की अधारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अच्छापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगे।

H

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1)के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है ,और
(8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापो में नियोजित नहीं करेगे ।

8. विधालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा ।
9. विधालय अधिनियम की धारा-19 में अधिकथित, विधालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विधार्थियों का नामांकन करेगा ।

10.विधालय अधिनियम की धारा-19 में यथानिर्दिष्ट विधालय के मानको और संनियमों को बनाए रखेगा ।
अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार है :-

विधालय परिसर का क्षेत्र

कुल निर्मित क्षेत्र :-3150 वर्ग मीटर

क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल :-4555 वर्ग मीटर

कक्षा कमरों की संख्या : 19

प्रधानाध्यापक—सह—कार्यालय—सह—भंडार कक्ष :-06

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय :-है

पेयजल सुविधा :-है

मिड—डे—मील पकाने के लिए रसोई:-है

बाधा रहित पहुँच

अध्यापक पठन सामग्री /क्रीड़ा खेलकूद उपस्करो/पुस्तकालय की उपलब्धता:-उपलब्ध है ।

11.विधालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विधालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं
चलाई जाएंगी ।

12.विधालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के
प्रयोजन के लिए किया जाता है ।

13.विधालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा
या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है ।

14.दिव्यालय को किसी व्याप्ति,व्याप्तियों के समूह या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा
रहा है ।

15.विधालय के लेखाओं की चार्टड अकाउटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित
किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए । प्रत्येक लेखा
विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिकशिक्षा)हनुमानगढ़ को भेजी जानी चाहिए

16.आपके विधालय को आवंटित मान्यता कोड 0543 संख्याक है । कृप्या इस नोट कर ले और इस
कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करे ।

17.विधालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय—समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)हनुमानगढ़ द्वारा अपेक्षित हो और राज्य
सरकार/स्थानीय प्राधिकाकरी के ऐसे अनुदेशों का पालना करता है ,जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत,
अनुपालन को सुनिश्चित करने या विधालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए
जाएं ।

18.सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण ,यदि हो को सूनिश्चित किया जाए ।

19.संलग्न उपांध गा के अनुसार अन्य कोई शर्त ।

भवदीय

जिला शिक्षा अधिकारी

प्रारम्भिक हनुमानगढ़